

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-78/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत बिल्हा, जिला-बिलासपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. बिल्हा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
02	गुरुनानक वार्ड
03	अग्रसेन वार्ड
04	आजाद नगर वार्ड
05	महात्मा गांधी वार्ड
06	मिनीमाता वार्ड
07	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
08	रानी दुर्गावती वार्ड
09	गुरु घासीदास वार्ड
10	भक्त कंवर राम वार्ड
11	डॉ. अंबेडकर वार्ड
12	बाबू जगजीवन राम वार्ड
13	इंदिरा गांधी वार्ड
14	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
15	राजीव गांधी वार्ड

बिल्हा नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर - विनय गुप्ता के घर से मुढीपार सीमा होते हुए अजय गर्ग राईस मिल तक।
 पूर्व - अजय गर्ग के राईस मिल अशोक कौशिक के खेत होते हुए कब्रिस्तान से कलीराम केवट के घर तक।
 दक्षिण - कलीराम केवट घर से नरेश चॉल होते हुए बी.एल. द्विवेदी घर तक।
 पश्चिम - बी.एल. द्विवेदी घर से विनय गुप्ता घर तक।

वार्ड क्रमांक 02 गुरुनानक वार्ड

- उत्तर - गुप्ता टायपिंग से गुरुद्वारा, रमेश गुप्ता के घर होते हुए घनश्याम अग्रवाल के घर तक।
 पूर्व - घनश्याम अग्रवाल के घर से विमल कंडिया के घर होते हुए अशोक राजपाल के घर व राजेन्द्र सवन्नी के घर तक।
 दक्षिण - राजेन्द्र सवन्नी के घर से गुरुद्वारा होते हुए मयूर वस्त्रालय (दिलबाग सिंह) के दुकान तक।
 पश्चिम - मयूर वस्त्रालय (दिलबाग सिंह) के दुकान से पवन अग्रवाल, अग्रसेन भवन होते हुए गुप्ता टायपिंग तक।

वार्ड क्रमांक 03 अग्रसेन वार्ड

- उत्तर - सुरजौतिन के घर से देवतालाब होते हुए बिसौहा ध्रुव के खेत तक।
 पूर्व - बिसौहा ध्रुव के खेत से आदर्श विद्यालय होते हुए हनुमान राईस मिल के पीछे करुणा पाण्डेय के घर तक।
 दक्षिण - करुणा पाण्डेय के घर से आशीष विश्वास के घर होते हुए कैलाश क्लाथ स्टोर्स तक।
 पश्चिम - कैलाश क्लाथ स्टोर्स से हरि निरंजन के घर होते हुए बोधराज के घर से सुरजौतिन के घर तक।

वार्ड क्रमांक 04 आजाद नगर वार्ड

- उत्तर - जगदीश अग्रवाल के घर से हनुमान राईस मिल होते हुए सुकृतदास के खेत तक।
 पूर्व - सुकृतदास के खेत से खोरबहरा खेत होते हुए माधीराम खेत तक।
 दक्षिण - माधीराम के खेत से सागर मल के घर तक।
 पश्चिम - सागरमल के घर से जगदीश अग्रवाल के घर तक।

वार्ड क्रमांक 05 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर - रामकुमार पटवा घर से शनिचरी बाजार होते हुए जगदीश मिल तक।
 पूर्व - जगदीश मिल से संतोष गुरुजी के प्लॉट होते हुए देवचरन के घर से विश्राम गृह, पशु चिकित्सालय तक।
 दक्षिण - पशु चिकित्सालय से महाविद्यालय ग्राउंड होते हुए रेलवे लाईन तक।
 पश्चिम - रेलवे लाईन से संवरा मोहल्ला होते हुए मंडी प्रांगण से रामकुमार पटवा घर तक।

वार्ड क्रमांक 06 मिनीमाता वार्ड

- उत्तर - रामलाल पंजाबी के मकान से पुसऊ राम गोंड के घर होते हुए लतेल यादव के घर एवं रूपसिंह धोबी के मकान से शिवचरण पोर्ते के मकान तक।
 पूर्व - शिवचरण पोर्ते के मकान से रेवा किराना दुकान से गौरव अग्रवाल के खाली प्लॉट होते हुए बलीराम लोधी के किराना दुकान तक।
 दक्षिण - बलीराम लोधी के किराना दुकान से रामाधार यादव के किराना दुकान तक।
 पश्चिम - रामाधार यादव के किराना दुकान से रामलाल पंजाबी के मकान तक (कुआँ)।

वार्ड क्रमांक 07 पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर - पूरन सोनी के दुकान से सुरेश केडिया के घर होते हुए रूपचंद के घर तक।
 पूर्व - रूपचंद के घर से शीतला मंदिर होते हुए पूरन अग्रवाल के घर तक।
 दक्षिण - पूरन अग्रवाल के घर से मुरित के घर होते हुए उग्रसेन कन्नौजे (गांधी चौक) तक।
 पश्चिम - उग्रसेन कन्नौजे (गांधी चौक) से असलम टेलर्स बंटी किराना होते हुए पूरन सोनी के दुकान तक।

वार्ड क्रमांक 08 रानी दुर्गावती वार्ड

- उत्तर - रेलवे लाईन से जुड़ावन के घर होते हुए इंद्रजीत के दुकान (शार्इन हीरो) तक।
 पूर्व - इंद्रजीत (शार्इन हीरो) दुकान से महेश किराना स्टोर होते हुए गुरुघासीदास गुरुद्वारा कवला कैंवट के घर तक।
 दक्षिण - कवला कैंवट के घर से सुकालू कैंवट के घर तक।
 पश्चिम - सुकालू कैंवट के घर से रेवाराम डहरिया, चंद्रभान डहरिया के घर होते हुए जुड़ावन के घर (रेलवे लाईन) तक।

वार्ड क्रमांक 09 गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर - रेलवे फाटक से श्वेता बुट हाउस होते हुए प्रकाश क्लाथ स्टोर तक।
 पूर्व - प्रकाश क्लाथ स्टोर जैतस्तंभ चौक, स्टेट बैंक होते हुए सुरेश पुस्तक सदन (दुकान) तक।
 दक्षिण - सुरेश पुस्तक सदन (दुकान) से शिवकली बंजारे के घर होते हुए राजा महिलांगे रेलवे लाईन तक।
 पश्चिम - राजा महिलांगे रेलवे लाईन से बंशी के घर होते हुए रेलवे फाटक तक।

वार्ड क्रमांक 10 भक्त कंवर राम वार्ड

- उत्तर - जगदीश यादव के घर से राकेश शर्मा के घर होते हुए रानी सिंह ठाकुर के खेत तक।
 पूर्व - रानी सिंह ठाकुर के खेत से पानी टंकी, महुआ चौक से रामनाथ वर्मा के घर होते हुए अमन टेलर, पुराना नगर पंचायत से विनोद के घर होते हुए किसान मितान दुकान तक।
 दक्षिण - किसान मितान दुकान से संजय मेडिकल होते हुए मस्जिद, रेलवे फाटक तक।
 पश्चिम - रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन होते हुए जगदीश यादव के घर तक।

वार्ड क्रमांक 11 डॉ. अंबेडकर वार्ड

- उत्तर - मुन्नीबाई के खेत से शिवराम साहू के घर, आंगनबाड़ी वार्ड क्र. 11 से सामुदायिक भवन होते हुए सीतादेवी कौशिक के घर, बिसाहू दास मानिकपुरी से अगरमन के घर तक।
 पूर्व - अगरमन के घर से रेलवे लाईन होते हुए उड़ियापारा रेलवे लाईन तक।
 दक्षिण - उड़ियापारा रेलवे लाईन से चंद्रभान मोची के घर होते हुए डोड़की भाठा पहुंच मार्ग तक।
 पश्चिम - डोड़की भाठा पहुंच मार्ग से मुन्नीबाई के खेत तक।

वार्ड क्रमांक 12 बाबू जगजीवन राम वार्ड

- उत्तर - आकाश ट्रेडर्स से रेलवे फाटक तक।
 पूर्व - रेलवे फाटक से कमल जॉन के घर होते हुए गैस गोदाम, अरविंद सिंह के घर तक।
 दक्षिण - अरविंद सिंह के घर से दुलौरिन यादव के घर होते हुए, राजकुमार यादव के घर से नकछेद के खेत तक।
 पश्चिम - नकछेद के खेत से मंगलधाम, कुलसुम बेगम के घर से होते हुए आकाश ट्रेडर्स तक।

वार्ड क्रमांक 13 इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर - मंगल स्पंज से एफ.सी.आई. रोड क्रेशर होते हुए रेलवे स्टेशन तक।
 पूर्व - क्रेशर, रेलवे स्टेशन से रेलवे फाटक, पुराना एफ.सी.आई. साधे सतनामी के घर तक।
 दक्षिण - साधे सतनामी के घर से आंगनबाड़ी क्र. 12, कन्या हाईस्कूल, महेश दाल मिल गनपति कंस्ट्रक्शन विनोद अग्रवाल के घर होते हुए एस.आर.एल.एम सेंटर, सरस्वती राईस मिल तक।
 पश्चिम - सरस्वती राईस मिल से शिवजी राईस मिल, नरेश अग्रवाल के खेत होते हुए मंगल स्पंज तक।

वार्ड क्रमांक 14 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

- उत्तर - सेवक घर से राजा तालाब तक।
 पूर्व - राजा तालाब से खेत्रपाल के खेत होते हुए भकला यादव के घर तक।
 दक्षिण - भकला यादव के घर से जनउ के घर होते हुए पानी टंकी तक।
 पश्चिम - पानी टंकी से घनश्याम साहू के घर होते हुए सेवकदास के घर तक।

वार्ड क्रमांक 15 राजीव गांधी वार्ड

- उत्तर - शंकर यादव के घर से सुखीदास के घर होते हुए रमेश दास के घर तक।
 पूर्व - रमेश दास के घर से जैतस्तंभ होते हुए दशरथ कोटवार के घर तक।
 दक्षिण - एफ.सी.आई. से बिजली आफिस होते हुए मुक्तिधाम निपनिया नाला सीमा तक।
 पश्चिम - निपनिया नाला सीमा से शंकर यादव के घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-78/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-78/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F1 78/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Bilha Distt. Bilaspur as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Bilha into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	LaL Bahadur Shastri Ward
2	Guru Nanak Ward
3	Agrasen Ward
4	Azad Nagar Ward
5	Mahatma Gandhi Ward
6	Minimata Ward
7	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
8	Rani Durgawati Ward
9	Guru Ghasidas Ward
10	Bhakt Kanwar Ram Ward
11	Dr. Ambedkar Ward
12	Babu Jagjivan Ram Ward
13	Indira Gandhi Ward
14	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
15	Rajiv Gandhi Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat BILHA

WARD NO.- 1 : LAL BAHADUR SHASTRI WARD

- North - From Vinay Gupta's house to Ajay Garg Rice Mill via Mudhipar Border .
 East - Ajay Garg Rice mill Kaliram Kevat's house via Ashok Kaushik farm and Kabristan.
 South - From Kaliram Kevat's House to B.L.Dvivedi's house via Naresh Chall .
 West - From B.L.Dvivedi's house to Vinay Gupta's house .

WARD NO.- 2 : GURU NANAK WARD

- North - From Gupta Typing Centre to Ghanshyam Agrawal's house Gurudwara via Ramesh Gupta's house .
- East - From Ghanshayam Agrawal's house to Rajendra Sawanni's house via Vimal kedia's house and Ashok Rajpal's house.
- South - From Rajendra Sawanni's house to Mayur Vastralay (Dilbag singh's) shop via Gurudwara .
- West - From Mayur Vastralay (Dilbag singh's) shop to Gupta Typing Centre via Pavan Agrawal and Agrasen Bhavan.

WARD NO.- 3 : AGRASEN WARD

- North - From Surjoutin's house to Bisauha Dhruv's Farm via Devtalab.
- East - From Bisauha Farm to Karuna Pandey's house via Adharsh School and back of Hanuman Rice Mill .
- South - From Karuna Pandey's house to Kailash cloth stores via Ashish Vishvas .
- West - From Kailash Cloth store to Surjoutin's house via Hari Nirajan's house and Bodhraj house .

WARD NO.- 4 : AZAD NAGAR WARD

- North - From Jagdish Agrawal to Sukritdas's farm via Hanuman Rice Mill
- East - From Sukritdas's farm to Maghiram farm via Khorbahra's farm.
- South - From Maghiram farm to Sagarmal's house.
- West - From Sagarmal's house to Jagdish Agrwal's house.

WARD NO.- 5 : MAHATMA GANDHI WARD

- North - From Ramkumar Patwa's house to Jagdish Mill via Shanichari Market .
- East - From Jagdish mill to Animal's hospital via Santosh Guruji's Plot and Devcharan's house to Rest house.
- South - From Animal's hospital to Railway line via Collage Ground .
- West - From Railway line to Ramkumar Patwa's house via Savara mohalla Mandi area .

WARD NO.- 6 : MINIMATA WARD

- North - From Ramlal Punjabi's House to Shivcharan Porte House via Pusauram Gond House, Latel Yadav House And Rupsingh Dhobi House .
- East - From Shivcharan Porte's house to Baliram lodhi's General Store via Rewa Kirana Shop and Gaurav Agrawal open plot .
- South - From Baliram Lodhi's General Store to Ramdhar Yadav's General Store.
- West - From Ramadhar Yadav's General Store to Ramlal Punjabi's house near well.

WARD NO.- 7 : PT. JAWAHAR LAL NEHRU WARD

- North - From Puran Soni's General store to Rupchand's house via Suresh kedia's house .
- East - From Rupchand's house to Puran agrawal's house via Shitla mandir .
- South - From Puran Agrawal's house to Ugrasen kannoje's house (Gandhi Chowk) via Murit's house.
- West - From Ugrasen kannoje's house to Aslam Tailor to Puran Soni's house via Bunt General Store .

WARD NO.- 8 : RANI DURGAWATI WARD

- North - From Railway line to Indrajeet's shop (Shine Hero) via Judavan's house .
- East - From Indrajeet's shop (Shine Hero) to Kavla kevat's house via Mahesh General Store via Gurughasidas .
- South - From Kavla kevat's house to Sukalu kevat's house.
- West - From Sukalu kevat's house to Rwvaram Dahariya to Judavan's house (Railway line) via Chandrabhan Dahariya .

WARD NO.-9 : GURU GHASIDAS WARD

- North - From Railway Fatak to Prakash Cloth Store via Shweta Boot house
- East - From Prakash Cloth store to Suresh Book Sadan (Shop) via Jaistambh Chowk, State Bank .
- South - From Suresh Book Sadan (Shop) to Raja Mahilange Railway line via Shivkali Banjare's house.
- West - From Raja Mahilange Railway line to Railway Fatak via Banshi's house .

WARD NO.- 10 : BHAKT KANWAR RAM WARD

- North - From Jagdish Yadav to Rani singh Thakur's Farm via Rakesh sharma.
- East - From Rani singh Thakur's Farm to Kishan Mitani's Shop via Water Tank, Mahua Chowk Ramnath Verma's and Old Nagar Panchayat Vinod's house.
- South - From Kishan Mitani Shop to Railway Fatak via Sanjay Medical and Masjid .
- West - From Railway Fatak to Jagdish Yadav's house via Railway Station.

WARD NO.- 11 : Dr. AMBEDKAR WARD

- North - From Munnibai's Farm to Agarman's house via Shivram Sahu via Anganbadi ward no. 11 Samudayik Bhawan, Sitadevi Kaushik's house and Bishudas Manikpuri's house.
- East - From Agarman's house to Udiyapara Railway line via Railway line.
- South - From Odiyapara Railway line to Dondkibhatha Road via Chandrabhan Mochi's house.
- West - From Dondkibhatha Road to Munnibai's Farm

WARD NO.- 12 : BABU JAGJIWAN RAM WARD

- North - From Akash Traders to Railway Fatak.
 East - From Railway Fatak to Arvind Singh house via John's house and Gas Godown.
 South - From Arvind Singh's house to Nekched Farm via Dulaurin Yadav's house and Rajkumar's house.
 West - From Nakched Farm to Akash Traders via Mangal Dham and Kulsum Beagam's house.

WARD NO.-13 : INDIRA GANDHI WARD

- North - From Mangal Sponj to Railway Station via F.C.I and Creshure.
 East - From Kreshure to Sadhe Satnami's house via Railway Station, Old FCI.
 South - From Sadhe Satnami to Saraswati Rice mill via Anganbadi no.12, Girls Highschool, Mahesh Dal mill, Ganpati Construction, Vinod Agrawal's house.
 West - From Saraswati Rice mill to Mangal Sponj via Shivji Rice mill and Naresh Agrawal's Farm.

WARD NO.- 14 : SARDAR VALLABHBHAI PATEL WARD

- North - From Sevak house to Raja Talab.
 East - From Raja Talab to Bhakla Yadav's house via Khetrapal's Farm.
 South - From Bhakla Yadav's house to Water Tank via Janau's house.
 West - From Water tank to Sevakdas's house via Ghanshyam sahu's house.

WARD NO.-15 : RAJIV GANDHI WARD

- North - From Shankar Yadav's house to Ramesh das's house via Sukhidas's house.
 East - From Ramesh das's house to Dashrath Kotwar house via Jai Stambh.
 South - From FCI to Nipania nala border via Electricity Office.
 West - From Nipania Nala Border to Shankar Yadav.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
 R. Ekka, Deputy Secretary.